



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20-सितम्बर 26, 2003 (भाद्रपद 29, 1925)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 20-SEPTEMBER 26, 2003 (BHADRA 29, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं	989	भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप को उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	989
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	741	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्यात और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1349
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1159	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	4209
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार क अधीन अध्यादेशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	9317
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और सरकार नियंत्रित द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	297
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु व अंग्रेजी के दस्तावेजों का प्रारूप	*

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	989	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	741	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	1349
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1159	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	4209
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications, including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9317
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	297
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).			

भाग I—खण्ड I
[PART I—SECTION II]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं० ई-13013/1/2003-हिन्दी-II—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्वायत्त निकाय-लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) कार्यालय को, जिनके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

कार्यालय का नाम और पता

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण

प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट)

इंडिया हैबिटेट सेन्टर

लोधी रोड, नई दिल्ली

ए० के० आहुजा

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० आई-25011/19/97-पी० सी०—लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के नियमों तथा अधिनियमों के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लागू करने पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के नियमों तथा अधिनियमों के नियम 37 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 14th August 2003

No. E-13013/1/2003-Hindi-II.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) rule, 1976 the Central Government hereby notifies Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) an Autonomous Body of the Ministry of Rural Development, 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

Name and Address of the Office

Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART)
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi

A. K. AHUJA

Joint Secretary (Admn.)

“37 लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद से संबंधित मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।”

ए० के० सिंह
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2003

संकल्प

सं० एफ० 8-6/2003-यू० 5—संगम ज्ञापन के नियम-21 और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने डा० बी० एच० ब्रज किशोर को राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में 5 सितम्बर, 2003 से 3 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुन-नियुक्त किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्, हैदराबाद को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० सुकुमार, उप सचिव

New Delhi, the 19th August 2003

No. I-25011/19/97-PC.—In exercise of the powers conferred on it by Rule 55 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology, the Government of India has decided that Rule 37 of the Rule & Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be substituted by the following :

“37. The Union Minister in-charge of the Ministry dealing with the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee.”

A. K. SINGH
Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPTT. OF SECONDARY EDUCATION & HIGHER

EDUCATION)

New Delhi, the 5th September 2003

RESOLUTION

No. F. 8-6/2003-U.5.—In accordance with the provisions contained in Rule 21 of the Memorandum of Association and Rules of the National Council of Rural Institutes, the Government of India have reappointed Dr. B. H. Briz Keshore as the Chairman of the National Council of Rural

Institutes for the second term of three years from 5th September 2003.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Member-Secretary, National Council of Rural Institutes, Hyderabad.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. SUKUMAR
Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन नियन्त्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003.